



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शनिवार, 27 जुलाई, 2024
श्रावण 5, 1946 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-4

संख्या 3031/77-4-24-22 गीडा-20
लखनऊ, 27 जुलाई, 2024

अधिसूचना

प०आ०-188

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) की धारा 3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, सरकारी अधिसूचना संख्या 8425 (1) भाउ०/18-11-223 भा/88, दिनांक 30 नवम्बर, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं।

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात:-

अनुसूची

औद्योगिक विकास क्षेत्र

जिला	तहसील	क्रम संख्या	ग्राम का नाम
1	2	3	4
गोरखपुर	सदर	1	हरैया
		2	गुरौली खुर्द
		3	गुरौली बुजुर्ग
		4	छपिया
		5	नौसड़

1	2	3	4
गोरखपुर	सदर	6	भिलौरा खुर्द
		7	भिलौरा बुजुर्ग
		8	पेवनपुर
		9	एकला
		10	अहिरौली-पटखौली
		11	तालनवर
		12	बाघागाड़ा
	सहजनवां	13	कालेसर
		14	बासपार
		15	बसुधा
		16	पिपरौली बुजुर्ग
		17	देईपार
		18	अमटौरा
		19	जैतपुर
		20	राउतपार उर्फ सरैया
		21	झुंगिया
		22	बड़गहन
		23	माही
		24	कुरमौल
		25	नगवां
		26	मुजैला
		27	तेनुआ
		28	कुसुम्ही
		29	नेवास
		30	रेटखास
		31	साथीपार
		32	खानीपुर
		33	सरया
		34	चकदाउद
		35	बरहुआ
		36	कोलिया
		37	एकडंगा
		38	नरकटहां
		39	ककना
		40	चकफत्ता
		41	नन्दापार
		42	मंझरिया

1	2	3	4
गोरखपुर	सहजनवां	43	मल्हीपुर
		44	जुड़ियान
		45	बनौड़ा
		46	सहबाजगंज
		47	रहीमाबाद
		48	जिगिना
		49	सहिजना
		50	तेनुहारी
		51	मडुंई
		52	रानीपुर
		53	जगदीशपुर
		54	भड़सार
		55	अडिलापार
		56	खरैला
		57	उसका
		58	हरैया कानुनगो
		59	बनगावां
		60	पिपरौली खुर्द
		61	भीटी रावत
		62	डोमहर माफी
		63	उज्जीखोर
		64	महुआपार
		65	जोन्हिया
		66	सीहापार
		67	हरिबंशपुर
		68	भप्सा
		69	पिपरा
		70	गाहासाड़
		71	बोक्टा
		72	लुचुई
		73	तिनहरा
		74	बरवार खुर्द
		75	बरवार बुजुर्ग
		76	चकभोप
		77	केशोपुर

1	2	3	4
गोरखपुर	सहजनवां	78	टेकुआपाती
		79	तीतनपार
		80	बरउर
		81	भगवानपुर
		82	सीयर
		83	सहजूपार
	गोला	84	गौखास
		85	हरपुर तप्पा चानपार
		86	वाथबुजुर्ग
		87	कास्तकाशी नायक
		88	मठदुर्वासा
		89	चाड़ी
		90	भीषमपट्टी
		91	दोदापार
		92	दिघरूवा
		93	सकर देईया
		94	परसा बुजुर्ग
		95	दुबरीपुरा
		96	वाथ खुर्द
		97	पुरादयाल
		98	धौरहरा
		99	गजपुर
		100	नरायनपुर खुर्द

आज्ञा से,
अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3031/LXXVII-4-24-22 GIDA-20, dated July 27, 2024 for general information.

No. 3031/LXXVII-4-24-22 GIDA-20

Dated Lucknow, July 27, 2024

IN exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976) *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 8425(1)-Bha. U./XVIII-11-223-Bha.88, dated November 30, 1989.

AMENDMENT

For the Schedule to the aforesaid Notification, the following Schedule shall be *substituted*, namely:-

“SCHEDULE

Industrial Development Area

District	Tehsil	Serial no.	Name of Village
1	2	3	4
Gorakhpur	Sadar	1	Haraiya
		2	Gurauli Khurd
		3	Gurauli Bujurg
		4	Chhapiya
		5	Nausar
		6	Bhilaura Khurd
		7	Bhilaura Bujurg
		8	Pewanpur
		9	Akala
		10	Ahiraui-Patakhauli
		11	Talnavar
		12	Baghagara
	Sahjanwa	13	Kalesar
		14	Basapar
		15	Basudha
		16	Piprauli Bujurg
		17	Deipar
		18	Amtaura
		19	Jaitpur
		20	Rautpar <i>urf</i> Saraiya
		21	Jhungia
		22	Bargahan
		23	Mahi
		24	Kurmaul

1	2	3	4
Gorakhpur	Sahjanwa	25	Nagawa
		26	Mujaila
		27	Tenua
		28	Kusumihi
		29	Newas
		30	Retakhas
		31	Sathipar
		32	Khanipur
		33	Sarya
		34	Chakdaud
		35	Barahaua
		36	Koliya
		37	Eakdanga
		38	Narkataha
		39	Kakana
		40	Chakfatta
		41	Nandapar
		42	Manjhariya
		43	Malhipur
		44	Juriyan
		45	Banauda
		46	Sahabajganj
		47	Rahimabad
		48	Jigina
		49	Sahijana
		50	Tenuhari
		51	Madui
		52	Ranipur
		53	Jagdishpur
		54	Bharsar
		55	Arilapar
		56	Khraila
		57	Usaka
		58	Haraiya Kanungo
		59	Bangawa
		60	Piprauli Khurd

1	2	3	4
Gorakhpur	Sahjanwa	61	Bhitirawat
		62	Domahar Mafi
		63	Ujjikhor
		64	Mahuapar
		65	Jonhiya
		66	Sihapar
		67	Haribanshpur
		68	Bhapsa
		69	Pipara
		70	Gahasar
		71	Bokta
		72	Luchui
		73	Tinahara
		74	Barwar Khurd
		75	Barwar Bujurg
		76	Chakbhop
		77	Keshopur
		78	Tekuapati
		79	Titanpar
		80	Baraur
		81	Bhagwanpur
		82	Siar
		83	Sahajupar
	Gola	84	Gaukhas
		85	Harpur Tappa Chanpar
		86	Vath Bujurg
		87	Kastkasi Nayak
		88	Mathdurwasa
		89	Chari
		90	Bhishampatti
		91	Dodapar
		92	Digharuva
		93	Sakardeiya
		94	Parsa Bujurg

1	2	3	4
Gorakhpur	Gola	95	Dubaripura
		96	Vath Khurd
		97	Puradayal
		98	Dhaurahara
		99	Gajpur
		100	Narayanpur Khurd "

By order,
ANIL KUMAR SAGAR,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 170 राजपत्र-2024-(510)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० औद्योगिक विकास-2024-(511)-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।